

## \*प्रेस विज्ञप्ति\*

### \*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज\*

\*दिनांक- नवम्बर 19, 2020\*

**\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **\*319 वाहनों का चालान , 20 वाहनों से कुल 16400/-रूपया शमन शुल्क वसूल\*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

**\*कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा **\*188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 00\*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व **\*मास्क न लगाने वाले कुल- 34 व्यक्तियों से 3400/- रुपये शमन शुल्क\*** वसुला गया।

**\*शान्ति भंग की आशंका के महेनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **\*कुल- 18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार\*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त मोहन पुत्र राजमन प्रसाद नि0 बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0- 256/20 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त रवि कल्लू पुत्र घनश्याम नि0 कस्बा नौतनवा थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0- 312/20 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **\*कुल-13\*** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

**\*जनपद में 18/19-11-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 20 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।\***